



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

22 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 816 राँची, सोमवार

13 अगस्त, 2018 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
संकल्प

6 अगस्त, 2018

**संख्या-5/आरोप-1-121/2016-1316 (HRMS)--** चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री देवेन्द्र कुमार, झा०प्र०से०, (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनोहरपुर, पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध अशोक सिन्हा, शिक्षक की पत्नी के नाम पर देवी कंस्ट्रक्शन (पूराना), शिव गुरु कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर (नया) कम्पनी चलाने, रॉयल्टी का पैसा कटौती के बाद भी टैक्स की राशि जमा नहीं करने एवं श्री सिन्हा से मिलीभगत कर राजस्व की चोरी करने संबंधी आरोप, जैसा कि जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-126;(A)/स्था०, दिनांक 29 अगस्त, 2016 से प्राप्त प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं ।

5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	DEVENDRA KUMAR 110011165678	श्री देवेन्द्र कुमार, झा०प्र०से०, (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनोहरपुर, पश्चिमी सिंहभूम सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पिपरा.पलामू के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सतीश कुमार जायसवाल,**

सरकार के उप सचिव।

जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007

-----